



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 672 राँची, मंगलवार 24 भाद्र, 1937 (श०)

15 सितम्बर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

11 सितम्बर, 2015

संख्या-1/न०वि०/मु०स्था/120/2010- 3359--नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा राज्य के शहरी निकायों में नगर प्रबंधक के पद पर संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त करने हेतु दिनांक 15 सितम्बर, 2015 को मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, शालीमार, धुर्वा, राँची में साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन किया गया है।

उक्त हेतु निम्नवत रूप से पाँच साक्षात्कार बोर्ड का गठन करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को मनोनीत किया जाता है:-

(I) Board A -

क्र०	पदाधिकारी का नाम / पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1	श्री प्रवीण टोप्पो, श्रम आयुक्त, राँची	अध्यक्ष

2	श्री रामनारायण प्रसाद, उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के सदस्य
3	एम0बी0ए0 विषय से संबंधित शिक्षाविद्	सदस्य

(II) Board B -

क्र0	पदाधिकारी का नाम / पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1	श्री राजेश कुमार शर्मा, निदेशक, SUDA	अध्यक्ष
2	श्री विपता उराँव, अवर सचिव, सहकारिता विभाग	अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के सदस्य
3	एम0बी0ए0 विषय से संबंधित शिक्षाविद्	सदस्य

(III) Board C -

क्र0	पदाधिकारी का नाम / पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1	श्री के0 रवि कुमार, निदेशक, उद्योग निदेशालय	अध्यक्ष
2	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा मनोनीत सदस्य	अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के सदस्य
3	एम0बी0ए0 विषय से संबंधित शिक्षाविद्	सदस्य

(IV) Board D -

क्र0	पदाधिकारी का नाम / पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1	श्री मनीष रंजन, निदेशक, उच्च शिक्षा	अध्यक्ष
2	श्री सुरेश पासवान, मुख्य अभियंता, राँची नगर निगम	अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के सदस्य
3	एम0बी0ए0 विषय से संबंधित शिक्षाविद्	सदस्य

(V) Board E -

क्र०	पदाधिकारी का नाम / पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1	श्री शशि रंजन प्रसाद सिंह, निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय	अध्यक्ष
2	श्री शशि भूषण मेहरा, उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के सदस्य
3	एम०बी०ए० विषय से संबंधित शिक्षाविद्	सदस्य

उपर्युक्त साक्षात्कार बोर्ड में अन्य विभागों से पदाधिकारियों को मनोनित किये जाने के प्रस्ताव में मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,
बी० पी० एल० दास,
सरकार के संयुक्त सचिव।
